



इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम—मिनी रत्न)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707" E-mail : info@irctc.com Website : www.irctc.com

No. 2023/IRCTC/CS/AGM-24

July 29, 2023

BSE Limited (Through BSE Listing Centre) 1 st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 542830	National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS) "Exchange Plaza", C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Scrip Symbol: IRCTC
--	--

Sub: Public Notice in Newspaper regarding 24th Annual General Meeting of the members of the Company

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with the MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, a Public Notice regarding 24th Annual General Meeting of the Company, with the subject **"INTIMATION REGARDING 24TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")**" have been published by way of advertisement in the "Indian Express", "Hindustan Times" and "Mint" (in English version) and "Hindustan Hindi", "Dainik Jagran" and "Rashtriya Sahara" (in Hindi version) on July 29, 2023.

The above-mentioned is submitted herewith for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)

(Suman Kalra)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No : FCS 9199

Encl: As above.

Irregularities in Amma Unavagams will be investigated: Mayor Priya

Councillors seek audit of canteen, say some employed for 3+ years in contravention of GO

EXPRESS NEWS SERVICE @Chennai

ALLEGING irregularities in Amma Unavagams, councillors urged the corporation to audit the corporation-run canteen, transfer staff working for more than three years in one place and fill up vacancies.

Ward 152 councillor, S Bharathi, said, "As per the G.O., staff must be transferred every three years, but many are working in the same canteen for much longer than three years. As we gear up to expand the breakfast scheme, we need to fill up existing vacancies in Amma Unavagams." Mayor R Priya assured to investigate the issue. "Any staff found guilty of irregularity will be dismissed," she said.

Allocation of land to displaced families, monopoly in night shelter home maintenance and vacancies in corporation schools were other major issues discussed in the meeting.

Ward 35 councillor, S Jeevan, alleged monopoly in night shelter homes run by the corporation. "Night shelter homes are not maintained properly. Few health department staff have taken up contracts through benamis. It needs to be investigated," he said. In reply, the mayor assured to review the contracts given to NGOs.

Ward 15 councillor S Nandhini, stressed the need to fill vacancies in schools. "There is shortage of teachers in many schools and this is affecting the students," Nandhini said. In reply, the mayor said, "Counselling is underway to



GCC council meeting was held at Ripon Building, on Friday | SHWIN PRASTH

Mayor withholds resolution to give cars to panel chairs, calls it policy matter

EXPRESS NEWS SERVICE @Chennai

A resolution to provide government cars to standing committee chairmen was withheld by Mayor R Priya. This led to a heated exchange between the mayor and six chairmen, all belonging to the ruling party. The standing committee chairmen had earlier petitioned Ministers K N Nehru and Udhayanidhi Stalin and Mayor R Priya for a new car for them to carry out their official duties. Following the question hour

"This needs government approval as it is a policy matter. The resolution is not abandoned, it is only temporarily withheld and will be taken up in the next meeting"

R Priya, GCC Mayor

and zero hour discussions, tabled resolutions were taken up for passage. Mayor R Priya withheld the resolution to provide cars to chairmen and cleared the other resolutions. Standing committee chairmen K Dha-

nansekaran (Accounts) and D Viswanathan (Education) objected to this. "Council has no precedence to withhold any resolution after tabling them," K Dhanasekaran told the mayor. Later, 15 council chairmen, all belonging to the ruling party, also demanded cars.

"This needs government approval as it is a policy matter. The resolution is not abandoned, it is only temporarily withheld and will be taken up in the next meeting," Mayor Priya told the council.



In the impact, a portion of the bus was pushed off the bridge | EXPRESS

23 hurt as truck rams TNSTC bus, pushing it to flyover's edge

EXPRESS NEWS SERVICE @Chennai

TWENTY-three people suffered injuries after a lorry ramed into a TNSTC bus near Oragadam on Friday. The bus was heading to Tambaram from Bengaluru with 50 passengers on board.

On Friday morning, the bus had stopped near the flyover in Oragadam on Vandalur Road. "At that time, a truck which was heading to Chennai ramed into the bus," said a police officer.

In the impact, the bus got pushed to the edge of the flyover and 23 passengers suffered injuries. Anbarasan (36) from Oragadam, who was about to board the bus sustained grievous head injuries and has been admitted

The bus had stopped near the flyover on Vandalur road, when a truck heading to Chennai ramed into it

Police

to the ICU, said the police. Oragadam police registered a case and sent the injured to Government Hospitals in Chengalpattu, Kancheepuram and Sriperumbudur. Fire and rescue services personnel from Vandalur and Oragadam brought in two cranes to remove the bus from the bridge. Due to the incident, traffic in the area was affected for more than one hour, said the police. The truck driver fled the scene after the incident and police are on the lookout for him.

'Malaysian passenger was not forced to remove thali'

EXPRESS NEWS SERVICE @Chennai

CHENNAI customs officials on Friday rejected the claims of an Indian-origin woman from Malaysia, who had alleged that the officials forced her to remove her Thali and detained her for more than two hours. The clarification came after the woman had released a video on social media alleging mental harassment in the name of inquiry at the Chennai airport recently.

The release from the customs department said the officers had noticed the woman and her husband were wearing jewellery, which was more than the permissible limit. When asked for a declaration of the same, the woman refused to furnish details. The release further said that the woman was not asked to remove her thali as alleged in the video, adding instead of cooperating with the officials, she and her husband began arguing. The husband later presented his gold jewellery for examination. It weighed 285 gm and was valued at ₹15 lakh. The customs duty payable was ₹6.5 lakh, which he refused to pay. Hence, the jewellery was seized. "After due proceedings, the jewellery was handed over to the passenger during their return journey since they paid the amount towards fine under the provisions of the act," the release stated.

Refused to pay customs

Gold jewellery on the husband weighed 285 gm, valued at ₹15 lakh. The customs duty payable was ₹6.5 lakh, which he refused. Hence, the jewellery was seized

BoB introduces fixed rate of interest for car loans

Chennai: Bank of Baroda has introduced a fixed rate of interest on car loans. Borrowers now have the option of choosing between fixed and floating interest. Harshadkumar T Solanki, GM, Mortgages and Retail Assets said, "A fixed rate that will remain unchanged will eliminate the impact brought about by fluctuation in the interest rate. The addition of a fixed ROI option makes Baroda Car Loans even more attractive." ENS



Member of Parliament TR Baalu on Friday inaugurated the road extension and stormwater drain work on THNB, Perarignar Anna Salai in Ayapakkam First Phase Panchayat. TDM minister EV Velu, health minister Ma Subramanian, and other officials were also present

Vijaya hosp holds CME on breastfeeding practices

Chennai: To mark the World Breastfeeding Week 2023, Vijaya Hospitals conducted continuing medical education on "Breast Milk-A right of every infant" on Friday. The CME was inaugurated by corporation commissioner J Radhakrishnan. Healthcare professionals, healthcare knowledge to enable mothers to give exclusive breastfeeding for the first six months, said a release. ENS

CORRIGENDUM
M/s. HINDUSTAN PHOTO FILMS MFG CO LIMITED
(In Liquidation)
Corrigendum for - E-Auction Notice published on 28-07-2023
in The New Indian Express and Dinaman

1. Kindly read the mail id as msureshkumar@icai.org / hplmcll@gmail.com
2. Kindly read the Earnest Money Amount mentioned in Column III as under:
Lot 1: Rs. 9,88,50,000 [on or before 25th August 2023 before 5.00 PM]
Lot 2: Rs. 1,06,50,000 [on or before 25th August 2023 before 5.00 PM]

Place: Coimbatore
Date: 28.07.2023
CA M Suresh Kumar, Liquidator
Mobile no. 73730-52341
Mail to: msureshkumar@icai.org

CITY UNION BANK LIMITED
Credit Recovery and Management Department
Administrative Office, No. 24-B, Gandhi Nagar, Kumbakonam - 612 001. E-Mail id: cmo@cityunionbank.in, Ph: 0435-2432322. Fax: 0435-2431746

POSSESSION NOTICE (Immovable Property)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of City Union Bank Ltd., having its Administrative Office at No. 24-B, Gandhi Nagar, Kumbakonam - 612001 and one of the Branch Offices at No. 114, OMR Road, Karapakkam, Chennai, Karapakkam Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13(1) & (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 15-05-2023 calling upon the borrower(s) No. 1) M/s. A.S.K. Egg Center, No. 34/24, Vandalur Annam Kol Street, Chennai - 600097. No. 2) Mr. Shri. Kalyanaraman, No. 34/24, Vandalur Annam Kol Street, Chennai - 600097. No. 3) Mrs. Poovalagi, V.K. Kalyanaraman, No. 34/24, Vandalur Annam Kol Street, Chennai - 600097. No. 4) Mr. G. Chandra Mohan, No. 34/24, Vandalur Annam Kol Street, Chennai - 600097 to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 33,43,839/- (Rupees Thirty Three Lakh Forty Three Thousand Eight Hundred and Thirty Three only) within 60 days from the date of the said Notice with subsequent interest thereon from 12-05-2023 with monthly rests.

The borrowers above named having failed to repay the amount despite the receipt of the above referred statutory notice, NOTICE is hereby given to the borrowers above named and the public in general that the undersigned has taken possession of the Properties described herein below in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules on this 26th day of July 2023.

The borrowers above named in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of City Union Bank Ltd. for an amount of Rs.34,40,385/- (Rupees Thirty Four Lakh Forty Thousand Three Hundred and Eighty Five only) and interest thereon from 18-07-2023 till the repayment of entire dues.

The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Immovable Property owned to our Bank

Schedule B
Property - 1: Property Owned by Mr. Shri. Kalyanaraman, S/o. Sanjivaraman, All that Piece and Parcel of The Vasant Land Adjoining to an Extent of Approximately 1,070 Sq.ft. (25 Cents) Mins by 126 Sq.ft. As Per Doc No. 662/2013 Dated 28-09-2013, Bearing Plot No. 6 Computed in O/S Survey No. 3964, As Per Plot No. 1045, Village 46/2147 Dated 20-07-2007, New Survey No. 3964/2, Situated in Vandalur Annam Kol Street, Karapakkam Village, Sholinganallur Taluk, Kanchi District and Bounded on the North by: P. No. 104, Owned by Mr. T.K. Sanyal, South by: 3 Feet Wide Common Pathway Connecting Vandalur Annam Kol Street, East by: Property Owned by Mr. Balakrishnan, West by: Property Owned by Mr. T.K. Sanyal, and The Property Situated Within The Registration District of South Chennai and Sub-Registration District of Neelankarai.

Place: Karapakkam, Date: 26-07-2023
Regd. Office: 149, T.S.R. (Big) Street, Kumbakonam, Thanjavur District, Tamil Nadu - 612 001. CN-155109/04/04/20129
Telephone No. 0435-2422322, Fax: 0435-2431746, Website: www.cityunionbank.in

WELFARE GRANTS FOR INDIAN ARMY PERSONNEL

1. Directorate of Indian Army Veterans, on behalf of Adjutant General's Branch, Army Headquarters, invites applications for the following welfare schemes from dependants of Indian Army personnel who died in service or are disabled while in service:-

Welfare Schemes	Eligibility	Amount (Annual)
Education Grant Applicants to apply for the education grant for the academic year 2022-23 only.	Children of physical casualties who died in service (including suicide case) from class 1st onwards	Class I to VIII Rs 10,000/- Class IX to XII Rs 14,000/- Graduation Rs 20,000/- Post Graduation Rs 25,000/- Professional Course Rs 50,000/-
Widow Higher Education Applicants to apply for the education grant for the academic year 2022-23 only.	Children of Battle Casualty (Fatal / Non-fatal) after first degree course	Post Graduation Rs 25,000/- Professional Course Rs 50,000/-
Widow of Indian Army personnel Widows of Indian Army personnel who died in service (Battle Casualty / Physical Casualty)	Graduation	Rs 20,000/-
Post Graduation	Rs 25,000/-	
Professional Course	Rs 50,000/-	
One Time Computer Grant	For wards and widows of Fatal Physical Casualty / Battle casualty pursuing graduation and above (on completion of 1st year)	Rs 35,000/-
Modified Auto scooter / Wheel Chair Modification of Car	Disabled Indian Army personnel (Battle Casualty / Physical Casualty) disabled while in service and amputee / paraplegic and quadriplegic, recommended by appropriate Specialist of Military Hospital	Modified Scooter / Wheel Chair through CSR partners (second issue after 15/7 years) Rs. 70,000/- for Modification of car
Daughter's Marriage / Re-marriage of widow / Orphan Son's marriage	Daughters / Widow / Orphan son of Indian Army personnel who died in service; Disabled soldiers (Non Fatal Battle Casualty), invalided out by a medical board with more than 60% disability	Rs. 1,00,000/- (Application to reach DIAV within one year of marriage along with Marriage Registration certificate)
Modification of Bathroom	For Indian Army personnel who are disabled in service (100% disability) and wheel chair bound	Rs. 40,000/-

Supported by EXPRESS PUBLICATIONS (MADRASI) ARMY WELFARE CORPUS

2. Wards of Battle Casualty should apply for full reimbursement of education expenses to Ceremonial & Welfare Directorate (CW-3), AG's Branch, HQ of MoD (Army), 206G, South Block, DHQ PO New Delhi-11 (Telephone No: 011-23018110), on prescribed contingent bill.

3. Specimen application forms and details of welfare schemes are available at www.indianarmyveterans.gov.in (Home) - Form download -> R&W form). VSK may be contacted for any query related to the veterans and widows at numbers given below:-

(a) Veterans - 011-25664200
(b) Widows - 011-25664100; 9910954067 (WhatsApp messages only)

4. Applications duly completed along with necessary documents for the above schemes should be sent to Director (Corpus), Directorate of Indian Army Veterans (DIAV), AG's Branch, Integrated HQ of MoD (Army), 104 Cavalry Road, Delhi Cantt -110010 (Tele No: 011-25674067 & E-mail: rwcorpus@gmail.com).

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
(A Government of India Enterprise - Mini Ratna Category-I)
CIN: L14899DL1999GO191707

Registered & Corporate office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel: 011-23312634, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com

INTIMATION REGARDING 24TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM").

NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on Friday, August 25, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the 24th AGM, in compliance with General Circular dated 28.02.2022, read together with circulars dated 8.02.2020, April 13, 2020, May 10, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CIR/2023 dated January 5, 2023 read with Circular dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020, and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations").

The Notice of the 24th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.irctc.com and on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the remote voting facility and e-voting system during AGM) at <https://www.evoting.nsdl.com>. A member can request for the physical copy of the Annual Report for the FY 2022-23 by sending a requisition at investors@irctc.com.

Manner of casting vote through e-voting:
Members may note that the Company will be availing e-voting services of NSDL to enable its Members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the 24th AGM. The Company has fixed Friday, August 18, 2023 as the "cut-off date" for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM. Members may also note that the remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 22, 2023 (9:00 A.M.) (IST) and end on Thursday, August 24, 2023 (5:00 P.M.) (IST). Additionally, the Company will be providing e-voting system for casting votes during the AGM.

Record Date, Dividend and Tax on Dividend:
Members may further note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 29, 2023 has recommended a final dividend of ₹2.00/- per share on the face value of ₹2/- per share subject to approval of the Shareholders at the 24th AGM. The "Record date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for financial year 2022-23 is Friday, August 18, 2023. The Final Dividend will be paid through various online transfer modes to the members who have updated their bank account details. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/demand drafts / cheques will be sent to the registered addresses in due course. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 19, 2023 to Friday, August 25, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2022-23, if declared at the AGM. In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rates, members are requested to submit the relevant documents in accordance with the provisions of the Act, a default notice regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2022-23" is hosted at the website of the Company, www.irctc.com. For more details, please refer to the Notes to the Notice of 24th AGM.

Manner of registering KYC details including email addresses, bank details for receiving Dividend electronically, if declared in the AGM:
SEBI vide its Circular dated 3rd November, 2021, read with clarification dated 14th December, 2021 ("SOP Circular") introduced common and simplified norms for processing investor's services requested by RTAs and norms for furnishing PAN, complete address, email address, mobile number, specimen signature, bank details and Nomination ("KYC Details"). Members are requested to follow the below mentioned procedure for registration/ update of their KYC details.

In case of Physical Holding
Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the Company i.e. Ankitk Assignments Limited, Ankit House, 4E/2, Jawahar Extension, Near Jhadeshwar Metro Station, New Delhi-110055, or scanned copy of email at kycupdate@anilk.com through their registered mail ID and provide the following details/documents:

- for registering email address:
 - Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Mobile No.
 - Copy of PAN card (self attested), f) Copy of Address Proof (self attested) g) Copy of share certificate (front and back)
- for updating Bank Account details:
 - Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque/Passbook bearing the name of the first shareholder
 - Members may please note the documents for KYC update may be sent through self attested and dated hard copies to the above mentioned address of RTA or through electronic mode, provided that these are sent through e-mail of the holder registered with RTA and all documents should be self attested by the Shareholder and in case of joint holders, by first joint holder.

In case of queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-voting user manual for Members" available at the download section of <http://www.evoting.nsdl.com> or call at the toll free no: 022-4886 7000 and 022-4886 7000. Members may also write an email to company@investors@irctc.com. The notice is being issued for the information and benefit of all of its members and in compliance of the relevant circulars of MCA and SEBI.

By order of the Board of Directors of IRCTC Ltd.
Place: New Delhi
Date: July 28, 2023
(Suman) Company Secretary and Compliance Officer

India, Japan 'natural partners' in tackling key challenges: EAM

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Japan's foreign minister Yoshimasa Hayashi on Friday held up India as an "indispensable" partner for achieving a free and open Indo-Pacific, while his Indian counterpart S Jaishankar said the two sides are "natural partners" for taking on challenges in areas ranging from the economy to emerging technologies. The two ministers were speaking at the second India-Japan Forum organised by the external affairs ministry.

Building on the "Free and Open Indo-Pacific (FOIP)" vision unveiled by Japanese Prime Minister Fumio Kishida during a visit to New Delhi in March, Hayashi said Japan intends to deepen cooperation with India in all areas. Japan and India are also working closely together under their presidencies of the G7 and the G20 respectively, he said.

Pointing to Kishida announcing the new FOIP plan in New Delhi, he said: "This fact itself is a reflection of the critical importance Japan places on India, as your nation is an indispensable partner in achieving FOIP."

Hayashi added: "At a time when there are many pressing challenges, including Russia's aggression against Ukraine, Japan and India fully share the necessity to lead the world to



Indian foreign minister S Jaishankar with his Japanese counterpart Yoshimasa Hayashi on Thursday.

cooperation, rather than to division and confrontation."

In his speech, Jaishankar highlighted key challenges confronting the world, including artificial intelligence, building reliable supply chains, ensuring trust and transparency in the digital domain, and upholding democratic values.

Jaishankar said India and Japan are natural partners for jointly addressing these challenges. "I would say today whether it is the future of the international order, strategy, economics, technology, culture or indeed whether it's history or geography, I think India and Japan have a lot going for each other," he said. Hayashi also spoke about Japan's plan to revise its "Development Cooperation Charter", the basic document for development cooperation. "Under this revised charter, we will continue to undertake efforts to build quality infrastructure in India," he said.

Japan seeks smoother biz ecosystem in India

Rezaul H Laskar

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Japan's foreign minister Yoshimasa Hayashi has called on India to improve its investment environment, with Japanese firms operating in the country highlighting several challenges they face in terms of tax issues and infrastructure.

The issue figured in Hayashi's discussions with external affairs minister S Jaishankar during the India-Japan foreign ministers' strategic dialogue on Thursday. A statement on the dialogue from the Japanese side said Hayashi "requested cooperation to improve the investment environment and for the early establishment of a Joint Crediting Mechanism (JCM)".

The issue also came up at a meeting on Friday between Hayashi and the Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCI) and representatives of several Japanese companies operating in India, including manufacturers of cars, auto components and machinery.

"The view from the Japanese business people here is that they would like to see a more predictable, transparent and stable

JAPAN CALLED FOR A MORE PREDICTABLE, TRANSPARENT, STABLE BUSINESS ENVIRONMENT

business environment in India, including implementing the legislation and tax issues," Yukiko Okano, deputy press secretary of Japan's foreign ministry, told a media briefing.

"The Japanese business sector sees a growing opportunity in operating in India for investment and trade. So, they would like to see a more stable investment climate and business environment put in place in India," Okano said. There was no immediate response on the matter from Indian officials.

In a post on its website, the JCCI said it has made several proposals to the Indian government to enhance the business environment. "In order to further expand future investment, it is essential to deepen a common understanding of Japanese companies' perspectives on the business environment in India," the chamber said.

G7 NATIONS WON'T CHANGE STAND ON UKRAINE: JAPAN

Rezaul H Laskar

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Japan on Friday said G7 member states won't change their position on Russia's invasion of Ukraine, and it is up to the Indian presidency of the G20 to forge consensus on text to refer to the crisis in the leaders' declaration to be adopted at the grouping's summit in September.

Indian negotiators have been hard at work to come up with text to refer to the crisis in the joint communiqué that will be acceptable to both G7 member states and Russia, which has dissociated itself from all references to Ukraine in G20 documents. China has insisted that "geopolitical content" such as the Ukraine war shouldn't be included in G20 documents.

Asked if G7 member states will review their position on the Ukraine war to pave the way for a consensus leaders' declaration at the G20 Summit to be hosted by India in September, Yukiko Okano, deputy press secretary in Japan's foreign ministry replied: "I think our position will remain the same as G7 countries. I think whichever the forum, we will voice out our concern and our objection relating to Ukraine. But when it comes to the joint communiqué, it is really up to the presidency how to reach a consensus." She added, "I think I would refrain from commenting on the path forward. This is really in the hands of the Indian presidency."

Visva-Bharati suspends PG student over posts supporting Amartya Sen

Tanmay Chatterjee

letters@hindustantimes.com

KOLKATA: Visva-Bharati, West Bengal's only central university, has suspended a postgraduate student for allegedly supporting Nobel laureate Amartya Sen, who has been locked in a land dispute with the varsity since last year.

According to the student, Somnath Sow, the varsity's action on Wednesday came after he extended his support to Sen through three Facebook posts on January 28 and February 5 and 9. While the university's vice-chancellor, Bidyut Chakrabarty, could not be reached for a comment, a spokesperson confirmed the action but did not specify the reason behind it. On Friday, Sow told HT that he was issued a show-cause notice on February 13 for attempting "to denigrate, defame and derogate Visva-Bharati as an institution and also its functionaries/officials and staff".

The 27-year-old student of rural management said he was not allowed to explain his stand before he was suspended. "The suspension order was passed unilaterally. This was done on purpose to damage my career," he said.

In its suspension notice, seen by HT, the varsity said: "As per the unanimous recommendation of the Standing Students' Disciplinary Committee (SSDC)... you are hereby suspended for one semester..." Neither the show-cause letter, seen by HT, nor the suspension order mentioned Sen. Visva-Bharati spokesperson Mahua Banerjee said Sow was summoned thrice by SSDC but he turned up only once. "The decision to suspend Somnath was taken by the SSDC," Banerjee said, refusing to provide further details.

Sow, however, said he was unable to meet authorities on two occasions as he was unwell and was having his exams.

THE STUDENT WAS ISSUED A NOTICE IN FEBRUARY FOR TRYING TO DEFAME THE VARSITY AND ITS OFFICIALS

son behind it. On Friday, Sow told HT that he was issued a show-cause notice on February 13 for attempting "to denigrate, defame and derogate Visva-Bharati as an institution and also its functionaries/officials and staff".

The 27-year-old student of rural management said he was not allowed to explain his stand before he was suspended. "The suspension order was passed unilaterally. This was done on purpose to damage my career," he said.

In its suspension notice, seen by HT, the varsity said: "As per the unanimous recommendation of the Standing Students' Disciplinary Committee (SSDC)... you are hereby suspended for one semester..." Neither the show-cause letter, seen by HT, nor the suspension order mentioned Sen. Visva-Bharati spokesperson Mahua Banerjee said Sow was summoned thrice by SSDC but he turned up only once. "The decision to suspend Somnath was taken by the SSDC," Banerjee said, refusing to provide further details.

Sow, however, said he was unable to meet authorities on two occasions as he was unwell and was having his exams.

ATS finds photos of Chabad House with terror suspects, security up

Vinay Dalvi

vinay.dalvi@hindustantimes.com

MUMBAI: Two men who were arrested last week in Pune in a theft case and later linked to a terror-related case in Rajasthan had been in the Chabad House, Maharashtra Anti-Terrorism Squad officials aware of the matter said on Friday.

The officials said that during investigation, Google Images were recovered from the accused of

Chabad House — one of the targets of the 26/11 terrorist attacks in Mumbai. After ATS alerted the Mumbai police, the Chabad House had strengthened security outside the Jewish community centre.

The Maharashtra ATS took custody of Mohammad Yunus Khan (23) and Mohammad Yakub Said (24), both residents of Barham in Madhya Pradesh — who were arrested by Pune police during a routine patrolling last week, officials said, adding that it was found that the two were wanted in a terror-related case in Rajasthan.

"During investigation by ATS it was found that the accused were trained in various methods of sabotage. A white explosive substance recovered from the rented flat of the two was used for carrying out bomb tests in isolated places in Pune, Satara and Kolhapur districts after which stringent UAPA charges were invoked," an official aware of the matter said.

सीएसआईआर-जीनोमिक और समवेत जीवविज्ञान संस्था
CSIR-INSTITUTE OF GENOMICS & INTEGRATIVE BIOLOGY
MALL ROAD, NEAR JUBILEE HALL, DELHI-07
Phone: 27662326, 27667806, Fax: 011-27662099, 27667471

Engagement of Consultants in CSIR-IGIB

Advt. No. 03/2023 Date: 07.07.2023

CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) located in Delhi is inviting applications from eligible retired employees of CSIR/Central Autonomous bodies/Central Government/PSUs for engagement as Consultants in CSIR-Institute of Genomics & Integrative Biology, Delhi-07 on short-term contract basis. The details of the Advertisement along with the qualification criterion and application procedure can be found on www.igib.res.in. Interested candidates can visit the website for further details.

Sd/-
CBC 36214/12/0003/2324 Sr. Controller of Administration

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited
(A Government of India Enterprise - Mini Rate Category-I)
CIN: L74890DL199900161707

Registered & Corporate office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tel: 011-23311263-64, Fax: 011-23311259 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com

INTIMATION REGARDING 24TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM").

NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on **Friday, August 25, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice convening the 24th AGM, in compliance with General Circular dated December 28, 2022, read together with circulars dated Apr. 8, 2020, Apr. 13, 2020, May 5, 2020, December 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/PICR/2023/4 dated January 5, 2023 read with read with Circular dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020, and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations").

The Notice of the 24th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.irctc.com and on the website of the Stock Exchange and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the remote e-voting facility and e-voting system during AGM) at <https://www.evoting.nsdl.com>. A member can request for the physical copy of the Annual Report for the FY 2022-23 by sending a request at investors@irctc.com.

Manner of casting vote through e-voting.
Members may note that the Company will be availing e-voting services of NSDL to enable its Members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the 24th AGM.

The Company has fixed **Friday, August 18, 2023** as the "cut-off date" for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM.

Members may also note that the remote e-voting period shall commence on **Tuesday, August 22, 2023 (9:00 A.M.) (IST)** and end on **Thursday, August 24, 2023 (5:00 P.M.) (IST)**. Additionally, the Company will be providing e-voting system for casting votes during the AGM.

Record Date, Dividend and Tax on Dividend:
Members may further note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 29, 2023 has recommended a **final dividend of ₹2.00/- per share** on the face value of ₹2/- per share subject to approval of the Shareholders at the 24th AGM. The "Record date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for financial year 2022-23 is **Friday, August 18, 2023**.

The Final Dividend will be paid through various online transfer modes to the members who have updated their bank account details. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/demand drafts/ cheques will be sent to the registered addresses in due course.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, August 19, 2023 to Friday, August 25, 2023** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2022-23, if declared at the AGM.

In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to **deduction of tax at source (TDS)** at applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the relevant documents in accordance with the provisions of the Act. A detailed notice regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2022-23" is hosted at the website of the Company, www.irctc.com. For more details, please refer to the Notes to the Notice of 24th AGM.

Manner of registering KYC details including email addresses, bank details for receiving Dividend electronically, if declared in the AGM:
SEBI vide its Circular dated 3rd November, 2021, read with clarification dated 14th December, 2021 ("SOP Circular") introduced common and simplified norms for processing investor's services requests by RTAs and norms for furnishing PAN, complete address, email address, mobile number, specimen signature, bank details and Nomination ("KYC details"). Members are requested to follow the below mentioned procedure for registration/ update of their KYC details.

In case of Physical Holding
Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending a duly signed request letter in **Form ISR-1** along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. **Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension, Near Jhandewalan Metro Station, New Delhi - 110055**, or scanned copy on email at kycupdate@alankit.com through their registered mail ID and provide the following details/documents:

- for registering email address:
a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Mobile No.
e) Copy of PAN card (self attested), f) Copy of Address Proof (self attested) g) Copy of share certificate (front and back)
- for updating Bank Account details:
a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque/Passbook bearing the name of the first shareholder
- Members may please note the documents for KYC updation may be sent through self attested and dated hard copies to the above mentioned address of RTA or through electronic mode, provided that these are sent through E-mail id of the holder registered with RTA and all documents should be self attested by the Shareholder and in case of joint holders, by first joint holder.

In case, Demat Holding
Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" available at the download section of <http://www.evoting.nsdl.com> or call at toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Members may also write an email to company at investors@irctc.com.

The notice is being issued for the information and benefit of all of its members and in compliance of the relevant circulars of MCA and SEBI.

By order of the Board of Directors of IRCTC Ltd.
Sd/-
(Suman Kalra)
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Dated: July 28, 2023

e-Invoice
Doing Business with Ease

Are you a GST taxpayer* with an Aggregate Annual Turnover exceeding of Rs 5 Cr in any of the preceding financial year?
If so, you need to know that w.e.f. 01st August, 2023 generating e-Invoices will be mandatory for all B2B supply of Goods or Services or both, or for exports.

e-Invoices bear Unique Invoices Reference Number generating through Invoice Registration Portal

Benefits of e-Invoicing


- Uniform & Standardized Invoice
- Lesser compliance burden
- Auto populated GST Return
- Auto reporting to GST portal
- Reduction in transcriptional errors
- Auto-sharing with the Buyers for reconciliation
- Auto generation of e-Way Bill
- Seamless transmission Of invoice
- Lesser Paperwork

For more details, please refer to the Notification No. 10/2023-Central Tax dated 10.05.2023 read with Principal Notification No. 13/2020-Central Tax dated 21.03.2020


***Except certain notified Categories of taxpayers (Please scan for details)**

Central Board of indirect Taxes and Customs


@cbic_india @cbicindia @cbicindia @CBIC INDIA @cbic www.cbic.gov.in




GOVERNMENT OF INDIA



G20
INDIA 2023



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav




Ministry of Health and Family Welfare


Public Notice

PROTECT YOUR FAMILY FROM **Dengue, Chikungunya and Malaria** BY TAKING THESE MEASURES


**Don't let
Water Collection
in and around
the house**




**Do not keep unused
containers, tyres,
cups, broken utensils
etc in the open.**




**Change
the water
in bird
pots, after
rubbing
regularly.**




**Cover overhead
and
other water
tanks with a
light fitting
lid**




**Do not leave
the water
beneath flower
vases tray .**



**Clean & dry water cooler,
once a week. If cannot
be emptied out put
two spoons of diesel /
petrol**





■ High fever

■ Severe headache

■ Joint pain

■ Eye pain

■ Skin rashes

■ Bleeding from gums etc.

If you have any of these symptoms, consult a doctor

NDMC

311




Mobile App

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi - 110001

for Further information,
call NDMC's 24x7
Helpline Number

1533

<div>  </div>	<div>  </div> <div> <p>Registered & Corporate office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel-011-23312631-64, Fax-011-23311229 Website: www.irctc.com e-mail: investors@irctc.com</p> </div>		<div>  </div>
	<p>INFORMATION REGARDING 24TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM").</p> <p>NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("IRCTC") will be held in Hybrid Mode on 25th December 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the 24th AGM, in compliance with General Circular dated December 28, 2022, read together with Circular dated May 13, 2022, January 13, 2021, and May 17, 2023, in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and May 5, 2022, (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/P23-PC/IR/2024 dated January 5, 2023 read with Circular dated May 13, 2022, January 13, 2021, and May 17, 2023, in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations).</p> <p>The Notice of the 24th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Depository Participants ("DPs"). The aforementioned documents will be available for viewing services of NSDL to enable members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the 24th AGM.</p> <p>The Company has fixed Friday, August 18, 2023 as the "cut-off date" for determining the eligibility of the members to vote by remote/e-voting or to-voting during the AGM.</p> <p>Members may also note that the Annual General Meeting period shall commence on Tuesday, August 22, 2023 (9:00 A.M. IST) and end on Thursday, August 24, 2023 (5:00 P.M. IST). Additionally, the Company will be providing e-voting system for casting votes during the AGM.</p> <p>Record Date, Dividend and Total Dividend:</p> <p>Members may further note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 29, 2023 has recommended a final dividend of ₹200/- per share on the face value of ₹2/- per share subject to approval of the Shareholders at the AGM. The AGM is being held on Monday, August 19, 2023 for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for financial year 2022-23 Friday, August 18, 2023.</p> <p>The Final Dividend will be paid through various online transfer modes to the members who have updated their bank details with the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for financial year 2022-23 Friday, August 18, 2023.</p> <p>Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Monday, August 19, 2023 to Friday, August 24, 2023 (inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2022-23, if declared at the AGM.</p> <p>In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the relevant documents in accordance with the provisions of the Act. A detailed notice regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2022-23" is posted at the website of the Company, www.irctc.com. For more details, please refer to the Notes to the Notice of 24th AGM.</p> <p>Manner of registering KYC details including email addresses, bank details for receiving Dividend</p> <p>SEBI vide its Circular dated 3rd November, 2021, read with clarification dated 14th December, 2021 ("SOP Circular") introduced common and simplified norms for processing investor's services requested by RTAs and norms for furnishing PAN, e-mail address, email address, mobile number, specimen signature, bank details and Nomination ("KYC details").</p> <p>Members are requested to follow the below mentioned procedure for registration/ update of their KYC details.</p>		
	<p>In case of Physical Holding</p> <p>Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank details by sending a duly signed request letter in Form ISIR-1 along with supporting documents to the Registrar and Share Transfer Agent at Alankrit Asset Management Private Limited, 4F/2 Jhandewalan Extension, Near Jhandewalan Metro Station, New Delhi - 110055, or scanned copy of same at kycdetails@alankrit.com through their registered mail ID and provide the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> for registering email address: <ol style="list-style-type: none"> Folio No. Name of shareholder, e) Email ID, d) Mobile No. for updating Bank Account details: <ol style="list-style-type: none"> Account Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) PAN, copy of the cancelled cheque/Passbook bearing the name of the first shareholder. <p>Members may please note the documents for KYC updation may be sent through self attested and dated hard copies to the above mentioned address of RTA or through electronic mode, provided that these are sent through E-mail ID of the holder registered with the RTA. The KYC updation should be self attested by the Shareholder and in case of joint holders, by first joint holder.</p>		
	<p>In case, Demat Holding</p> <p>Please contact your Depository Participant (DP) and register your KYC details and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.</p>		
	<p>In case of any queries/questions, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs)" for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members available at the download section of http://www.evoting.indiainfo.com or call at the toll free no. 022- 4886 7000 & 022- 2499 7000. Members may also refer to the website www.evotingindia.com for more details.</p> <p>The notice is being issued for the information and benefit of all its members and in compliance of the relevant circulars of MCA and SEBI.</p>		
	<p align="right">By order of the Board of Directors of IRCTC Ltd.</p>		
	<p>Place : New Delhi (Suman Kalia) Date : July 28, 2023</p>		
	<p align="right">Company Secretary and Compliance Officer</p>		

RITES

THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(₹ In crores except EPS)

S.N.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2023 <small>(Unaudited)</small>	31.03.2023 <small>(Audited)</small>	30.06.2022 <small>(Unaudited)</small>	31.03.2023 <small>(Audited)</small>	30.06.2023 <small>(Unaudited)</small>	31.03.2023 <small>(Audited)</small>	30.06.2022 <small>(Unaudited)</small>	31.03.2023 <small>(Audited)</small>
1	Revenue from Operation	503.67	658.99	578.33	2519.62	544.35	686.81	605.04	2628.27
2	Other Income	17.69	31.17	31.40	119.16	18.28	18.82	31.67	101.75
3	Total Income	521.36	690.16	609.73	2638.78	562.63	705.63	636.71	2730.02
4	Net Profit/(Loss) Before Tax*	129.08	184.49	173.58	708.54	162.55	191.13	195.12	773.92
5	Net Profit/(Loss) After Tax for the period/year**	95.88	138.37	129.26	530.54	119.58	138.89	144.70	570.97
6	Total Comprehensive Income [Comprising Profit/(Loss) after tax] and Other Comprehensive Income (after Tax)*	97.33	139.81	129.45	536.33	120.89	140.24	144.79	576.62
7	Equity Share Capital	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30
8	Other Equity (excluding non-controlling interest)	-	-	-	2262.74	-	-	-	2363.48
9	Earnings per share (EPS)**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Basic (₹)	3.99	5.76	5.38	22.08	4.49	5.49	5.72	22.56
	Diluted (₹)	3.99	5.76	5.38	22.08	4.49	5.49	5.72	22.56

* There were no Exceptional items during the period.

** EPS is not annualized for the quarter ended June 30, 2023, March 31, 2023 & June 30, 2022.

Notes:

- The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 28th July 2023.
- The above is an extract of the detailed form of quarterly financial results filed with Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full forms of the Quarterly financial results are available on the stock exchange websites [www.sebiindia.com](#), [www.bseindia.com](#) and/or company's website [www.rites.com](#).
- The Financial Results of the company/group has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015, as amended.
- Ministry of Railway (MoR) vide letter dated 18.10.2021 had decided in principle for closure of Indian Railways Station Development Corporation (IRSDC), in which Company has an investment of ₹48 Crores. Closure activities are underway and Board of IRSDC intend to transfer the assets & liabilities of IRSDC to Rail Land

Development Authority (RLDA) for consideration not less than book value. Financial statement of IRSDC has been prepared on liquidation basis. As on 31.03.2023, IRSDC has reported a net worth of ₹225 crores and has reported a consolidated net profit of ₹9.52 crore during the quarter ending June 30, 2023. Therefore, management does not perceive any impairment to the value of investment in IRSDC.

- The Board of Directors have proposed interim dividend of ₹3.75 per share (face value of ₹10 per share) for the financial year 2023-24.
- Figures for the quarter ended 31st March 2022 are the balancing figures between audited accounts in respect of the full financial year and the figure for nine months ended 31st December 2022 which were subjected to limited review.

The Figures for the previous period have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Rahul Mittal)

Chairman & Managing Director and Chief Executive Officer

DIN: FV010499

Place: Gurugram
Date: 28.07.2023

RITES LIMITED

(A Government of India Enterprise)

[www.rites.com](#)

Transforming to GREEN


FUTURE Ready™ Not Just more of the same, but much more of the New!

Railways | Exports | Urban Infrastructure & Sustainability | Highways | Bridges & Tunnels

Buildings & Airports | Ports & Harbours | Pipeways | Quality Assurance

#withUda

Registered Office :- SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110092, India E-mail:- cs@rites.com I Ph.: 0124-2571666 CIN: L7489ND1974G007022T




IndianOil

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Indian Oil Corporation Limited

[CIN - L23201MH1950G0011380]


Regd. Office: IndianOil Bhawan, G-9, All Vihar Jang Marg, Bandra (East), Mumbai-400 051
Website: www.iocl.com Email ID: investors@indianoil.in



G20
भारत 2023

The threat that binds India

On Duty, Always!



STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THREE MONTHS ENDED 30th JUNE 2023
(* In crore)

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED
	RESULTS FOR THREE MONTHS ENDED		RESULTS FOR THE YEAR ENDED		RESULTS FOR THREE MONTHS ENDED		RESULTS FOR THE YEAR ENDED	
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
1 Revenue from Operations	2,21,145.42	2,26,492.05	2,51,529.48	9,34,952.66	2,25,410.49	2,30,711.56	2,55,378.21	9,51,409.94
2 Other Income	688.47	1,638.11	687.06	6,235.22	614.62	1,215.26	626.39	4,196.92
3 Total Income	2,21,833.89	2,28,130.16	2,52,216.54	9,41,187.88	2,26,025.11	2,31,926.82	2,56,004.60	9,55,606.86
4 Total Expenses	2,03,760.95	2,19,915.20	2,55,145.78	9,31,489.74	2,06,914.24	2,18,257.72	2,55,028.94	9,41,453.36
5 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and share of associate/ joint venture)	18,073.84	12,214.96	(2,529.24)	9,698.14	11,910.97	13,669.10	975.66	14,175.50
6 Share of profit/(loss) of Associate and Joint Venture	-	-	-	-	339.14	89.51	367.95	862.19
7 Net Profit/(Loss) for the period before Tax	18,073.84	12,214.96	(2,529.24)	9,698.14	19,450.11	13,758.61	1,343.61	15,037.69
8 Net Profit/(Loss) for the period after Tax	13,750.44	10,058.69	(1,992.53)	8,241.82	14,735.30	10,841.23	882.96	11,704.26
9 Net Profit/(Loss) for the period after Tax attributable to Equityholders of the Parent	-	-	-	-	14,436.96	10,289.62	(279.38)	9,792.12
10 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	14,597.50	10,929.53	(3,816.01)	6,778.09	15,133.67	11,160.19	1,974.49	11,415.90
11 Total Comprehensive Income for the period attributable to Equityholders of the Parent	-	-	-	-	14,826.67	10,601.46	808.74	9,492.42
12 Paid-up Equity Share Capital (Face value - ₹ 10 each)	14,121.24	14,121.24	9,414.16	14,121.24	14,121.24	14,121.24	9,414.16	14,121.24
13 Other Equity excluding revaluation reserves	-	-	-	1,20,985.98	-	-	-	1,25,948.68
14 Securities Premium Account	-	-	-	-	76.74	76.74	76.74	76.74
15 Net Worth (Total Equity excluding Non-controlling Interest)	1,49,355.04	1,34,757.54	1,27,443.02	1,34,757.54	1,54,659.03	1,39,720.24	1,34,317.05	1,39,720.24
16 Outstanding Debt	1,011,011.72	1,32,495.45	1,08,900.44	1,32,495.45	1,10,368.41	1,40,114.62	1,17,208.97	1,40,114.62
17 Debt Equity Ratio	0.68	0.98	0.85	0.98	0.70	0.98	0.86	0.98
18 Earnings per Share (₹) (Adjusted for Bonus) (Basic and Diluted) (Face value - ₹ 10 each)	9.98	7.30	(1.45)	5.98	10.47	7.47	(0.20)	7.11
19 Capital Redemption Reserve	-	-	297.65	-	0.41	0.41	298.06	0.41
20 Bond Redemption Reserve	1,013.20	1,013.20	1,781.79	1,013.20	1,031.95	1,031.95	1,800.54	1,031.95
21 Debt Service Coverage Ratio	4.17	5.37	0.52	1.30	4.24	3.96	1.09	1.42
22 Interest Service Coverage Ratio	12.02	7.59	1.00	3.39	12.20	7.96	2.86	3.92

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. Bombay Stock Exchange (URL: <https://www.bseindia.com/mim-data/corpling/Attach.htm?00659ac6-771a-4054-Se13-667712675a.pdf>) & National Stock Exchange of India (URL: [https://archives.nseindia](https://archives.nseindia.com/corporate/IOC_Results_Q1_23_24_S_28072023141854.pdf)

[illegible][illegible]

